

ब्रेन इंटरनेशनल स्कूल

विषय- हिंदी

कक्षा- छठी

Assignment अप्रैल-2018-19

प्रश्न-1 निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए।

इस संसार में मनुष्य ही सर्वश्रेष्ठ प्राणी है, क्योंकि इसी में बुद्धिबल है। बुद्धि बल के साथ-साथ उसमें आत्मविश्वास दृढ़ता और स्वावलंबन जैसे गुण भी हैं। इन्हीं गुणों के सहारे वह असंभव को भी संभव बना सकता है। कुछ लोग स्वावलंबन से दूर भगवान भरोसे बैठे रहते हैं तथा जीवन की असफलताओं के लिए भाग्य का दोष मानते हैं। जबकि पुरुषों में जो सिंह के समान पुरुषार्थी होते हैं लक्ष्मी उन्हें ही प्राप्त होती है तथा भाग्य के भरोसे बैठे रहने वालों को नहीं। संसार के सुखों का भोग केवल कर्मवीर अथवा परिश्रमी व्यक्ति ही करते हैं। मनुष्य यदि चाहे तो पुरुषार्थ के बल पर अपना भाग्य स्वयं निर्मित कर सकता है।

क) संसार में सर्वश्रेष्ठ प्राणी कौन है और क्यों?

ख) कैसे व्यक्ति संसार के सुखों का भोग कर सकते हैं?

ग) कुछ लोग असफलताओं के लिए किसे दोष देते हैं?

घ) आत्मनिर्भर का समानार्थी शब्द लिखिए।

ड.) मनुष्य अपना भाग्य कैसे बना सकता है ?

प्रश्न-2 निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए।

क) केशव ने श्यामा को अंडे क्यों नहीं दिखाए ?

ख) श्यामा को केशव पर तरस क्यों नहीं आया?

ग) बचपन में लेखिका मोजे कब धोती थी और क्यों?

घ) लेखिका को शनिवार की सुबह क्यों अच्छी नहीं लगती थी?

ड.) कवि चिड़िया के कौन-कौन से गुण अपने स्वभाव में देखता है?

च) ' चिड़िया अन्न से प्यार करती है।' यह किस बात से पता चलता है?

प्रश्न-3 निम्न भाषाओं की लिपियों के नाम लिखिए।

क) उर्दू

ख) मराठी

प्रश्न-4 खाली स्थान भरिए।

क) भाषा के दो रूप हैं- -----और ----- ।

ख) हिंदी दिवस ----- को मनाया जाता है।

प्रश्न-5 निम्न शब्दों के वर्णों को अलग अलग करके लिखिए।

क) गुलाम ख) त्योहार

प्रश्न-6 निम्न शब्दों के दो - दो पर्यायवाची शब्द लिखिए।

क) मेघ ख) असुर

प्रश्न-7 निम्न शब्दों के विलोम शब्द लिखिए।

क) अनाथ ख) आशावादी

प्रश्न-8 'समय का सदुपयोग' विषय पर 80 - 100 शब्दों में एक अनुच्छेद लिखिए ।